



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 30.05.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा शराब की लाइसेंसी दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण, ऑनलाइन ऐप से गुणवत्ता का परीक्षण कर जांच हेतु लिए गए नमूने



सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रतिदिन व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 30.05.2021 को जिलाधिकारी खीरी, श्री शैलेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल द्वारा जनपद खीरी के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकानों पर बिक्री हेतु उपलब्ध शराब का ऑनलाइन ऐप के द्वारा गुणवत्ता का परीक्षण किया गया तथा स्टॉक रजिस्टर के माध्यम से सत्यापन किया गया, साथ ही शराब की वैधता की जांच भी की गई। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जनपद में राजपत्रित अधिकारीगण के नेतृत्व में समस्त शराब की लाइसेंसी दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा शराब की वैधता एवं गुणवत्ता का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा 11,750 ट्रामाडोल हाईड्रो क्लोराईड टेबलेट (कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये) सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 30.05.2021 को थाना पसगवां पुलिस की द्वारा उचौलिया गुरुद्वारा के पास से समय करीब 12.15 बजे अभियुक्त गण 1. राजेश खन्ना पुत्र स्व० कुलदीप राज खन्ना नि० मकान नं 14 प्रेमनगर थाना सदर जनपद सीतापुर 2. कलवीर पुत्र जशपाल सिंह नि० पठला थाना दनावला जनपद बरनाला(पंजाब) 3. जसवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह नि० रामसर कोठे थाना बरनाला जनपद बरनाला(पंजाब) को कुल 11,750 ट्रामाडोल हाईड्रो क्लोराईड टेबलेट (प्रतिबन्धित नशीली दवा) जो प्रति पत्ता 50 कुल 235 पत्ते कुल कीमत करीब 2.50 लाख रूपये तथा कुल वजन नशीली टेबलेट 5 किलो 864 ग्राम व दो अदद मोबाईल , 50 हजार रूपये नकद मौके से बरामद हुए जिसके संबंध में थाना हाजा पर अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 152/21 धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गणों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त गण:-

1. राजेश खन्ना पुत्र स्व० कुलदीप राज खन्ना नि० प्रेमनगर थाना सदर जनपद सीतापुर
2. कलवीर पुत्र जशपाल सिंह नि० पठला थाना दनावला जनपद बरनाला(पंजाब)
3. जसवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह नि० रामसर कोठे थाना बरनाला जनपद बरनाला(पंजाब)

गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यों के नाम:-

- 1.उ०नि० उग्रसेन सिंह प्रभारी थानाध्यक्ष पसगवां खीरी
- 2.उ०नि० राजेन्द्र यादव थाना पसगवां खीरी
3. हे०का० जय प्रकाश पटेल
- 4.का० प्रमोद कुमार
- 5.का० जितेश यादव
- 6.का० आदर्श कुमार मौर्य

थाना भीरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शकील को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना भीरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.05.21 को गैंगस्टर एक्ट में वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शकील पुत्र सगीर नि० ग्राम भीरा थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना भीरा पर मु०अ०सं० 203/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शकील पुत्र समीर नि० ग्राम व थाना भीरा जनपद खीरी

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 194/19 धारा 3/5/8 गोवध अधि० थाना भीरा
2. मु०अ०सं० 45/21 थाना 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भीरा
3. मु०अ०सं० 44/21 धारा 401 भादवि थाना भीरा
4. मु०अ०सं० 179/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना भीरा
5. मु०अ०सं० 203/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भीरा

**अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 1,742 लीटर
अवैध शराब ,34 शराब भट्टी बरामद कर 75 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए **1,742 लीटर अवैध कच्ची शराब, 34 अवैध शराब भट्टी** व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर **75 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **69 अभियोग** पंजीकृत किए गए। साथ ही मौके पर लगभग 17,950 लीटर लहन भी नष्ट किया गया।

जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक **01.05.21 से 30.05.21** तक जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **10,320 लीटर अवैध कच्ची शराब, 212 अवैध शराब भट्टी** व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर **525 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **495 अभियोग** पंजीकृत किए गए। साथ ही मौके पर लगभग **73,250 लीटर लहन** भी नष्ट किया गया है। आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा अवैध शराब का निर्माण व बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

1. थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 126/21 धारा 323/324/504 भादवि व 2(2)(5) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त राजेश उर्फ राजू पुत्र मिश्रीलाल नि0 रामडीला वार्ड 8 थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 72/20 धारा 419/420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त छोटेलाल पुत्र सुन्दर नि0 गोगवां थाना भीरा जनपद खीरी व मु0अ0सं0 249/21 धारा 376/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मोहित उर्फ मुकुट बिहारी पुत्र स्व0 सुन्दर लाल नि0 मूडा सवारान थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **1742 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 34 शराब भट्टी** बरामद कर **69 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना निघासन	450 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मौहम्मदी	162 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना भीरा	150 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना गोला	120 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मैलानी	105 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मितौली	105 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना खीरी	70 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना तिकुनिया	70 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
9.	थाना हैदराबाद	60 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
10.	थाना सिंगाही	58 लीटर	06 अभियुक्त गिरफ्तार
11.	थाना धौरहरा	55 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
12.	थाना पसगवां	55 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
13.	थाना फरधान	54 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
14.	थाना सम्पूर्णानगर	50 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
15.	थाना नीमगाव	50 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
16.	थाना पलिया	48 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
17.	थाना मैगलगंज	35 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
18.	थाना फूलबेहड़	30 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
19.	थाना कोतवाली सदर	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	1742 लीटर	75 अभियुक्त गिरफ्तार